



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251156
CG-DL-E-04012024-251156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 22]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 25(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, वरिष्ठ [भण्डार अधिकारी, भण्डार अधिकारी, सहायक भण्डार अधिकारी एवं भंडारी (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, [वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, भण्डार अधिकारी, सहायक भण्डार अधिकारी एवं भंडारी (तकनीकी)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, [वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, भण्डार अधिकारी, सहायक भण्डार अधिकारी एवं भंडारी (तकनीकी)] भर्ती नियम, 2019 में, अनुसूची में, भंडार अधिकारी पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—

(क) स्तंभ (9) में प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्षों" प्रविष्टि को रखा जाएगा;

(ख) स्तम्भ (11) में, -

(i) "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात तथा टिप्पण से पूर्व, निम्नलिखित टिप्पण अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"टिप्पण 1: खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, [वरिष्ठ भण्डार अधिकारी, भण्डार अधिकारी, सहायक भण्डार अधिकारी एवं भंडारी (तकनीकी)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900-142400) में स्तर 7 में सहायक भण्डार अधिकारी के फीडर पद के संबंध में पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी।";

(iii) "टिप्पण" को "टिप्पण 2" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(iv) उप-शीर्षक "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)" के अधीन, -

(क) खंड (क) में, -

(क) उप-खंड (ii) में, "वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपये)" कोष्ठक, अक्षर और आंकड़े के पश्चात, " में चार वर्ष वाले" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(ख) उप-खंड (iii) में, "तीन वर्ष" शब्द के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हों, -

(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन के साथ स्नातकोत्तर डिग्री;

(II) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक या स्वायत्त शासी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान की किसी संस्था में इंडेंटिंग, तकनीकी भंडार और भंडारलेखा की खरीद में दो वर्ष का अनुभव।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यावसायिक अध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक डिग्री;

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन या भाड़ांगार प्रबंधन या क्रय या रसद या सार्वजनिक प्रापण में डिप्लोमा;

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक या स्वायत्त शासी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान की किसी संस्था में इंडेंटिंग, तकनीकी भंडार और भंडारलेखा की खरीद में तीन वर्ष का अनुभव।

(v) टिप्पण 2 में, "प्रतिनियुक्ति की अवधि" शब्द के स्थान पर, "प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि" शब्द रखे जायेंगे।

[फा. सं. 22/1/2023-खान.III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 620(अ.) तारीख 28 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2024

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Senior Stores Officer, Stores Officer, Assistant Stores Officer and Store Keeper (Technical)] Recruitment Rules, 2019, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Senior Stores Officer, Stores Officer, Assistant Stores Officer and Store Keeper (Technical)] Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Senior Stores Officer, Stores Officer, Assistant Stores Officer and Store Keeper (Technical)] Recruitment Rules, 2019, in the Schedule, against serial number 2 relating to the post of Stores Officer, -

(A) in column (9), for the entry, the entry “Two years for promotee.” shall be substituted;

(B) in column (11), -

(i) under the sub-heading “Promotion”, for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted;

(ii) after sub-heading “Promotion” and the entries relating thereto and before Note, the following Note shall be inserted, namely: -

“Note 1: The eligibility service shall continue to be three years in respect of incumbents holding the feeder post of Assistant Stores Officer in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines [Senior Stores Officer, Stores Officer, Assistant Stores Officer and Store Keeper (Technical)] Recruitment (Amendment) Rules, 2023.”;

(iii) the “Note” shall be numbered as “Note 2”;

(iv) under the sub-heading “Deputation (including short term contract)”, -

(a) in clause (a), -

(A) in sub-clause (ii), after the words, brackets, letters and figures “pay matrix (Rs. 53100-167800)”, the words “with four years in” shall be inserted;

(B) in sub-clause (iii), for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted;

(b) for clause (b), and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(b) possessing the following educational qualifications and experience, -

(I) Masters Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or Institute;

(II) two years experience in indenting, purchase of technical stores and stores account in a concern of the Central Government or State Government or statutory or autonomous organisation or public sector undertakings or recognised University or research Institution.

OR

(i) Bachelors Degree in Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute;

(ii) Diploma in Materials Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from recognised University or Institute;

(iii) three years experience in indenting, purchase of technical stores and stores account in a concern of the Central Government or State Government or statutory or autonomous organization or public sector undertakings or recognised University or research institution.

(v) in Note 2, for the words “Period of deputation”, the words “The period of deputation including the period of deputation” shall be substituted.

[F. No. 22/1/2023-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 620(E), dated the 28th August, 2019.